

रक्ति

आईसीएमआर परियोजना में प्रोजेक्ट टेक्नीकल सपोर्ट-1 और परियोजना अनुसंधान वैज्ञानिक-2 के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
परियोजना का नाम - एप्लीकेशन ऑफ़ एक्सपेंडिड न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग बाय इंटीग्रेशन ऑफ़ मेटाबोलोमिक्स एंड जेनोमिक्स फॉर सेकेंड टियर
डीएनए एनेलिसिस।

Vacancy

**Applications are invited for the post of Project Technical Support-1 & Project Research Scientist -2
in ICMR project**

**Project Name - Application of Expanded Newborn Screening by Integration of Metabolomics and Genomics
for Second Tier DNA
Analysis"**

Name of the Post/ पद का नाम	Salary/वेतन	Number of Post/पदों की संख्या	Qualifications/अर्हता	Age Limit/सिमा
प्रोजेक्ट टेक्नीकल सपोर्ट-1	18,000/- + 27%HRA /मकान कराया जाता	01	10वीं + डिप्लोमा (एमएलटी/डीएमएलटी/आईटीआई) + संबद्ध विषय/क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। ईएलआईएसए आधारित तकनीक या एलसीएमएस/एमएस प्रबंधन अथवा मेटाबोलोमिक्स में कार्य का अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 10 th + Diploma (MLT/DMLT/ITI) + two years experience in relevant subject /Field .Candidates with experience in ELISA based technique or LCMS/MS handling or work in metabolomics will be preferred .	28 वर्ष तक Upto 28 year
परियोजना अनुसंधान वैज्ञानिक-2	67,000/- + 27%HRA/ मकान कराया जाता	01	1. जैव सूचना विज्ञान विश्लेषण में 3 वर्ष का कार्य अनुभव सहित एमएससी/एमटेक (जैव सूचना विज्ञान) में संमेकित स्नातकोत्तर डिग्री सहित प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री अथवा प्रकाशन या डाटाबेस/टूल/पाइपलाइन निर्माण में अनुभव सहित जैव सूचना विज्ञान संबंधी कार्य में पी.एचडी। 2. जैव सूचना विज्ञान विश्लेषण में 3 वर्ष का कार्य अनुभव सहित एमएससी/एमटेक (जैव सूचना विज्ञान) में संमेकित स्नातकोत्तर डिग्री सहित द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री अथवा प्रकाशन या डाटाबेस/टूल/पाइपलाइन निर्माण में अनुभव सहित जैव सूचना विज्ञान संबंधी कार्य में पी.एचडी।	40 वर्ष तक Upto 40 year

		<p>2. Second Class Post graduate Degree, Including the integrated PG degrees in MSc/MTech (Bioinformatics) with Three years of work Experience in bioinformatics analysis or PhD in bioinformatics related work along with publications or database/tool/pipeline development experience.</p> <p>डीएनए सिक्वेन्सिंग, आरएनए-सिक्वेन्सिंग एवं होल जीनोम सिक्वेन्सिंग डाटा का विश्लेषण करने में विशेषज्ञता जीनोम डाटाबेस; मानक प्रोटोकॉल और पाइपलाइन से परिचित, इसके साथ ही कस्टम पाइपलाइन को विकसित करने की क्षमता एवं गुणवत्ता नियंत्रण, अलाइनमेंट, क्वांटिफिकेशन एवं विश्लेषण हेतु एवं फास्ट क्यूसी, ट्रिमोमेटिक और एचआईएसएटी 2 जैसे उपकरणों पर विशेषज्ञता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>Candidates with expertise in analyzing genomic sequencing data, including DNA sequencing, RNA-Seq, and whole-genome sequencing data, familiarity with genomic databases, standard protocols and pipelines, as well as the ability to develop custom pipelines and mastery over tools like FastQC, trimmomatic and HISAT2 for quality control, alignment, quantification and analysis would be given preference.</p>	
--	--	--	--

इच्छुक उम्मीदवार अवैदित पद के विवरण वाले एक कवरिंग लेटर सहित अपना सीवी स्वयं, डाक या ईमेल द्वारा geneticsaaims1@gmail.com पर/ कमरा नंबर-840, 8वीं मंजिल, बाल चिकित्सा विभाग, मातृ एवं शिशु ब्लॉक में भेजें।

अवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 जून, 2024
शाम 5:00 बजे तक है।

केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए प्रदान नहीं किया जाएगा।

Interested candidates may submit their CV along with a covering letter specifying the post applied for in person, by post, or email- geneticsaaims1@gmail.com/ Room No. -840, 8th Floor, Department of Pediatrics, Mother & Child Block Last date of receiving the application 11th June 2024 by 5:00pm

Only shortlisted Candidates will be invited for interview. No TA/DA will be provided for attending the interview.